



मुख्यमंत्री सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

राँची, दिनांक-07.07.2019

मुख्यमंत्री सचिवालय रांची

संख्या- 409/2019

जमुआरी, बाढु, कांके

=====

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने जलशक्ति अभियान के तहत TCB योजना निर्माण एवं श्रमदान योजना कार्यक्रम में भाग लेकर आम जन और अधिकारियों के साथ श्रमदान किया

=====

मुख्यमंत्री ने बारिश की बौछारों के बीच ग्रामीणों संग गर्म गर्म खिचड़ी खाई, पुलकित हुए जमुआरी के ग्रामीण

=====

बरसात के पानी का संचयन पर हमें बल देना है

जल प्रबंधन के लिए ग्राम विकास समिति को 5 लाख रुपये

---रघुवर दास, मुख्यमंत्री झारखण्ड

=====

रांची।

पानी जीवन के लिए जरूरी है। पानी की जरूरत आज सभी कार्य के लिए है। सभी को पानी चाहिये लेकिन इसके संचयन के लिए बहुत कम लोग पहल करते हैं। हम इसका प्रबंधन नहीं होता है, जिससे बरसात का जल व्यर्थ बह जाता है। जल के संचयन की दिशा में सरकार ने पहल करते हुए प्रधानमंत्री के दिशा निदेश में पूरे राज्य में जिला और पंचायत स्तर पर श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन कर जल संचयन कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही है। आपके जमुआरी गांव से भी इस अभियान का शुभारंभ हुआ है अब आप भी एक कदम चलें सरकार चार कदम चलेगी। ये बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने आयोजित जलशक्ति अभियान के तहत TCB योजना का निर्माण एवं श्रमदान कार्यक्रम में कही।

गांव वाले योजना बनाकर जल का करें संचयन

मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी में गांव और शहर में पानी की समस्या से लोग जूझते हैं। अगर बरसात का पानी संचयन करें तो भूगर्भ जल में वृद्धि होगी। ऐसा करने से हमें धीरे धीरे जल संकट से मुक्ति मिलेगी। राज्य सरकार ग्राम विकास समिति को 5 लाख रुपये दे रही है। ग्रामीण योजना बनाकर वर्षा जल को रोकने हेतु निर्माण कार्य कर सकते हैं। इस कार्य में किसी अधिकारी का हस्तक्षेप नहीं होगा। आपका गांव आपकी योजना की तर्ज पर कार्य होगा।

सरकार दे रही है अनुदान आप लगाएं पौधा

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में खेती की जमीन पर मेढ की चौड़ाई अधिक देखी जाती। इस पर काष्ठ पेड़ लगा कर हम अपनी आमदनी का जरिया बना सकते हैं। मुख्यमंत्री जन वन योजना के माध्यम से सरकार इस कार्य हेतु 80% अनुदान प्रदान कर रही है। लोगों को इस योजना का लाभ लेना चाहिए।

छोटे कार्य से पहल करें , जल संचयन जरूरी

मुख्यसचिव श्री डी के तिवारी ने कहा कि राज्य में होने वाली बारिश का मात्र 6% जल का संचयन हो पाता है, जबकि 94% जल बह कर कहीं और चला जाता है। इस बात की गंभीरता पर सभी को विचार करना चाहिए। हमसभी अगर छोटे कार्य से पहल करें तो जल संचयन कर जल की जरूरत को पूरा किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जिला प्रशासन रांची द्वारा पर्यावरण महत्व से सम्बंधित स्थानीय भाषा की पुस्तक का विमोचन किया।

कार्यक्रम के बाद तेज बारिश के बीच मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास विधायक श्री जीतू चरण राम, मुख्यसचिव डॉ डी के तिवारी, अपर मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री कमल नयन चौबे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्री अविनाश कुमार, प्रधान सचिव राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार श्री के के सोन, उपायुक्त रांची श्री राय महिमापत रे, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री अनीश गुसा और बड़ी संख्या में गांव वालों ने कुदाल चलाकर श्रमदान किया

कार्यक्रम में विधायक कांके श्री जीतू चरण राम, अपर मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री कमल नयन चौबे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्री अविनाश कुमार, प्रधान सचिव राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार श्री के के सोन, उपायुक्त रांची श्री राय महिमापत रे, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री अनीश गुसा व ग्रामीण उपस्थित थे।

###

=====

#Team PRD(CMO)